



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 128] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 19, 1983/फाल्गुन 28, 1904
No. 128] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 19, 1983/PHALGUNA 28, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 19 मार्च, 1983

क्र०आ० 184(अ) —केन्द्रीय सरकार का ईस्ट इंडिया जूट और हैसियम एक्सचेंज लिमिटेड, 47 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता द्वारा अधिम सविदा (जिनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन मान्यता के नवीकरण के लिए प्राप्त आवेदन पर बादा बाजार आयोग से परामर्श करके, यह समाधान हो गया है कि ऐसा करना व्यापार और लोकहित में है, अतः वह उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा, कलकत्ता नगर में, जूट के माल (किसी मिल द्वारा बनाया गया किसी भी किस्म का हैसन और बोरी का कपड़ा या बोरे या दोनों, सुतली या धागे या दोनों या जूट से बनाए गए किसी भी अन्य प्रकार के उत्पाद) की अधिम सविदा को बाबत प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एक्सचेंज को 29 मार्च, 1983 से 28 मार्च, 1984 (जिसमें ये दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) तक की एक वर्ष की ओर अवधि के लिए मान्यता देती है। स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना में, कलकत्ता नगर से अभिप्रेत है:—

(1) कलकत्ता म्यूनिसिपल अधिनियम, 1951 (पश्चिमी बंगाल अधिनियम, 1951 का 33) की धारा 5 में यथा परिभाषित कलकत्ता और क्लाइव रो का हैरिंग नार्थ या साउथ भाग और नदी के किनारे तक स्ट्रेट रोड और जो पड़ने टानीगंज नगरपालिका के, जो अब निष्क्रिय है, अधीन था

(2) कलकत्ता पत्तन और

(3) 24 परगाना, नादिया, हावड़ा और हुगली के जिले

2 इसके द्वारा अनुदत्त मान्यता हम जर्त के अधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे निवेष्टों का अनुपालन करेगा जो समय-समय पर बादा बाजार आयोग द्वारा दिए जाएं।

[संख्या 12(1)—आई०टी०/82]

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 19th March, 1983

S.O. 184(E).—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition, made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the East India Jute and Hessian Exchange Limited, 43, Netaji Subhash Road, Calcutta, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of one year from the 29th March, 1983 to the 28th March, 1984 (both days inclusive) in respect of forward contracts in jute goods (hessian and sacking cloth or bag or both, twines or yarns or both manufactured by any of the mills or any other manufacture of whatever nature made from jute) in the city of Calcutta.

Explanation.—In this notification, the expression "city of Calcutta" means :

- (1) Calcutta as defined in Clause (ii) of Section 5 of the Calcutta Municipal Act, 1951 (West Bengal Act, 33 of 1951), together with part of Hastings North or South edge of Clyde Row and Strand Road to the river bank and the areas which were previously under the now defunct Tollygunge Municipality.
 - (2) The port of Calcutta ; and
 - (3) The Districts of 24 Parganas, Nadia, Howrah and Hoogly.
2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

क्र०आ० 185 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम सविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 72) की धारा 5 के अधीन ईस्ट इंडिया जूट एंड ट्रेडिंग एक्सचेंज लि. 43, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता द्वारा मान्यता के स्वीकरण के लिए किए गए आवेदन पर बायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्सचेंज को पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय, उड़ीसा तथा त्रिपुरा और केन्द्र शासित प्रदेश अरुणाचल प्रदेश और मिजोराम में कच्चा पटसन (मेस्टा सलिन) की अग्रिम सविदाओं के बारे में 29 मार्च, 1983 से 28 मार्च,

1984 तक (जिसमें वे दोनों दिन भी सम्मिलित हैं) को एक वर्ष की अतिरिक्त कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

2. एतद्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अधीन है कि उक्त एक्सचेंज ऐसे-ऐसे विदेशों का अनपालन करेगा जो बायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएं।

[संख्या 12(1)-आई०टी०/82]

के० एस० बाजवा, उप सचिव

S.O. 185(E).—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commission, the application for renewal of recognition, made under Section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), by the East India Jute and Hessian Exchange Limited, 43, Netaji Subhash Road, Calcutta, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by Section 6 of the said Act, recognition to the said Exchange for a further period of one year from the 29th March, 1983 to the 28th March, 1984 (both days inclusive) in respect of forward contracts in raw jute (including mesta) in the States of West Bengal, Bihar, Assam, Meghalaya, Orissa and Tripura and the Union Territories of Arunachal Pradesh and Mizoram.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Exchange shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(1)-IT/82]

K. S. BAIWA, Dy. Secy.